

आर्थराइटिस का यौगिक प्रबंधन



मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान


आयुष मंत्रालय, भारत सरकार

68, अशोक रोड, गोल डाक खाना के निकट, नई दिल्ली-110 001

आर्थराइटिस

आर्थराइटिस एक सामान्य स्थिति है, जिसे जोड़ों में दर्द और सूजन के द्वारा वर्गीकृत किया जाता है। यह कई कारकों के कारण है जैसे— अनुवांशिक गड़बड़ी, सूजन, प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया में परिवर्तन, चयापचय संबंधी परिवर्तन और अन्य। जीवनशैली में बढ़ती हुई गतिहीनता और मोटापे को इसे बढ़ाने वाले कारकों में शामिल किया गया है जो कि स्थिति को और खराब कर देता है। सभी प्रकार के जोड़ संबंधी रोगों को निम्नलिखित रोग प्रक्रियाओं के संदर्भ में समझा जा सकता है—

- 1) **अपक्षयी जोड़ का रोग** : आस्टियोआर्थराइटिस, सर्वाइकल आर्थराइटिस
- 2) **स्वतः प्रतिरक्षा जोड़ का रोग**: रूमेटाइड आर्थराइटिस, सोरियाटिक आर्थराइटिस
- 3) **उपापचयी जोड़ का रोग**: गठिया रूपी आर्थराइटिस





आर्थराइटिस के सामान्य प्रकार—

- 1) **आस्टियोआर्थराइटिस**: यह एक अपक्षयी जोड़ रोग है जिसमें वह उपास्थि जो जोड़ की हड्डियों में हड्डियों की छोर के अवारण के रूप में कार्य करती है, उसका क्षय हो जाता है, जिससे दर्द व हड्डियों का आघात होता है क्योंकि हड्डियों की एक दूसरे से रगड़ प्रारंभ हो जाती है। यह गठिया का सबसे आम रूप है।
- 2) **रह्यमेटाइड आर्थराइटिस**: यह एक स्वप्रतिरक्षा रोग है जिसमें शरीर की असामान्य प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया के परिणामस्वरूप जोड़ के अस्तार में सूजन आ जाती है। रूमेटाइड आर्थराइटिस सबसे गंभीर और निष्क्रिय करने वाले प्रकारों में से एक है, जिससे

महिलाएं ज्यादातर प्रभावित होती हैं।

3) **गठिया रूपी आर्थराइटिस:** यह ज्यादातर पुरुषों को प्रभावित करता है, चयापचय संबंधी गड़बड़ी के कारण होता है जिसमें यूरिक एसिड बढ़ जाता है, जो जोड़ में सूजन पैदा करता है। यह दर्दनाक स्थिति अक्सर छोटे जोड़ों पर आक्रमण करती है, विशेष रूप से बड़ी पैर की अंगुली पर।

4) **एंकायलूसिंग स्पांडिलाइटिस:** यह एक प्रकार का आर्थराइटिस है जो रीढ़ को प्रभावित करता है। नतीजतन, हड्डियों, स्नायुबंधन और मांसपेशियों को प्रभावित करने वाली दीर्घकालिक सूजन, रीढ़ की हड्डियों की हड्डी का भंजन होता है, जो उसे कठोर कर देता है। अन्य समस्याओं में शिराओं और बड़े जोड़ों में सूजन शामिल हैं।



5) **सर्वाइकल स्पांडिलाइटिस:** यह एक प्रकार का अपक्षयी आस्टियोआर्थराइटिस है। यह गर्दन की अस्थियों और जोड़ों को प्रभावित करता है, जो पीड़ा एवं कठोरता की ओर ले जाता है।

आर्थराइटिस का यौगिक प्रबंधन

अन्य प्रकार के आर्थराइटिस हैं: फ्राब्रोमायलजिया, लुपुस, प्सोरिएटिक आर्थराइटिस, एंटेरोपैथिक आर्थराइटिस, रिएक्टिव आर्थराइटिस, द्वितीयक आर्थराइटिस, पॉलीमायलजिया रुमेटिका।

आर्थराइटिस के सामान्य लक्षण:

- जोड़ों में खिंचाव— उसके अत्यधिक उपयोग के पश्चात् अथवा निष्क्रियता के कारण।
- जोड़ों में पीड़ा।
- जोड़ों में भारीपन मुख्य रूप से निष्क्रियता के कारण होता है तथा उपयोग होने पर यह खत्म हो जाता है।
- गतिविधि में बाधा।
- संबंधित जोड़ों में गर्माहट तथा लालिमा।
- जोड़ सामान्य दिखाई पड़ सकते हैं परंतु जोड़ों के सिरों पर हड्डी की वृद्धि अनुभव हो सकती है।
- प्रमुख रूप से भार वहन करने वाले जोड़ इसमें शामिल हैं।
- जोड़ों में सूजन।
- रुमेटाइड आर्थराइटिस में जोड़ों में विकृति दिखाई पड़ सकती है।
- अन्य सामान्य लक्षण हैं—
 - थकान
 - मंद ज्वर
 - मांसपेशीय पीड़ा,
 - भूख में कमी
 - अवसाद
 - ठंडे और/अथवा पसीनेयुक्त हाथ और पैर।

आर्थराइटिस का प्रबंधन

आहार संबंधी प्रबंधन

- ◆ जोड़ों के क्षय को कम करने के लिए उपचार/प्रबंधन को ठीक समय पर प्रारंभ किया जाना चाहिए।
- ◆ चूंकि मोटापा आर्थराइटिस पर विपरीत प्रभाव डालता है, अधिक वजन वाले व्यक्ति को धीरे-धीरे अपना वजन कम करना चाहिए।
- ◆ तले हुए भोजन से बचना चाहिए।
- ◆ पेय पदार्थ को अधिक मात्रा में ग्रहण करना चाहिए।
- ◆ थोड़ी मात्रा में दूध अपने आहार में शामिल करें।
- ◆ लवण युक्त पदार्थ को कम मात्रा में लें तथा सोडियम अवधारण की स्थिति में ऊपर से अतिरिक्त लवण न खाएं।
- ◆ गठिया की स्थिति में प्यूरिन की अधिक मात्रा से युक्त पदार्थों जैसे मछली, अण्डे, मटर, दाल, सूखी फलियों, लाल मांस से दूर रहें।
- ◆ वसा युक्त पदार्थों से दूर रहें।
- ◆ कैफीन और श्वेत शर्करा से दूर रहें जो पीड़ा और सूजन में वृद्धि करते हैं।

आर्थराइटिस का यौगिक प्रबंधन

- 1) ओ३म् का उच्चारण और प्रार्थना
- 2) क्रियाएं: कपालभाति, कुंजल
- 3) जोड़ संबंधी सरल चालन
- 4) सूक्ष्म व्यायाम के चुने हुए अभ्यास: ग्रीवाशक्ति विकासक, पूर्णभुजाशक्ति विकासक, मणिबंध शक्तिविकासक, करतलशक्ति विकासक, जानुशक्तिविकासक, गुल्फ-पाद-पृष्ठ-पाद- तल-शक्ति-विकासक
- 5) योगासन: ताड़ासन, कटिचक्रासन, कोणासन, उर्ध्वहस्तोत्तानासन, उत्तानपादासन, पवनमुक्तासन, वक्रासन, गोमुखासन, मर्जरी आसन, उष्ट्रासन, भद्रासन, भुजंगासन, मकरासन, शवासन।
- 6) प्राणायाम: नाडीशोधन प्राणायाम, भ्रामरी, सूर्यभेदी प्राणायाम
- 7) विशेष अभ्यास: योग निद्रा
- 8) ध्यान

आर्थराइटिस से बचाव:

जोड़ों की देखभाल: नियमित व्यायाम करें तथा जोड़ों पर अत्यधिक दबाव न दें। दौड़ने तथा भार उठाने जैसे जोड़ों पर दबाव डालने वाले व्यायामों से बचें।

सही मुद्रा: हर समय उचित मुद्रा बनाए रखने का प्रयास करें तथा एक ही मुद्रा में अधिक समय तक रहने से बचें। यदि मेज़ पर बैठकर कार्य करते हों तो यह सुनिश्चित करें कि कुर्सियाँ उपयुक्त ऊँचाई पर स्थित हों तथा कार्य के बीच थोड़ी-थोड़ी देर पर अवकाश लेकर थोड़ा टहल लें।

मांसपेशियों में उपयुक्त कसावट बनाए रखें: मांसपेशियाँ जोड़ों को सहारा देती हैं, इसलिए सुदृढ़ मांसपेशियाँ जोड़ों को स्वस्थ रखने में भी सहायक होंगी।

लक्षणों की तरफ ध्यान दें, डॉक्टर से मिलें तथा उपयुक्त जांच करवाएं: उचित उपचार प्राप्त करने के लिए उचित जाँच की आवश्यकता होती है। समय पूर्व उपचार का अर्थ है कम क्षति एवं कम पीड़ा।

वजन कम करने का प्रयास करें— अतिरिक्त वजन घुटनों और कूल्हों पर भार डालता है। चाहे किसी भी प्रकार का आर्थराइटिस हो, अधिक वजन का अर्थ है दर्द की अधिकता।

जोड़ों की स्व देखभाल के उपाय

- ⦿ **जोड़ों का बचाव:** जोड़ों को अत्यधिक तनाव देने से बचें। घर और कार्य क्षेत्र में, सहायक उपकरणों का प्रयोग करें जो कार्य को आसान बना सकते हैं।
- ⦿ **काम और आराम के बीच संतुलन स्थापित करने का प्रयास करें।**
- ⦿ **स्वयं मालिश:** मांसपेशियों और जोड़ों की मालिश करें क्योंकि यह मांसपेशियों को आराम प्रदान करता है और रक्त संचार बढ़ाता है।
- ⦿ **जोड़ों के आसपास गर्म स्नान द्वारा,** गर्म पानी की बोतल द्वारा अथवा गर्म पैड द्वारा कठोरता को कम किया जा सकता है।
- ⦿ **नारंगी का रस:** एक अनुसंधान में आस्टियोआर्थराइटिस के खतरे और उसकी वृद्धि को रोकने में विटामिन सी और अन्य एंटीऑक्सीडेंट का महत्त्व प्रदर्शित किया गया है। नारंगी तथा अन्य खट्टे फल फोलिक एसिड से अच्छे स्रोत हैं, जो रूमेटाइड आर्थराइटिस की औषधि मेथोट्रेक्सेट के दुष्प्रभावों को कम करने में सहायक हो सकता है।
- ⦿ **रोजाना टहलें:** आर्थराइटिस से ग्रसित व्यक्तियों के लिए टहलना एक आदर्श व्यायाम है। यह कोमल जोड़ों को क्षतिग्रस्त किए बिना कैलोरी को कम करता है, मांसपेशियों को दृढ़ करता है और अस्थियों को मजबूत बनाता है।
- ⦿ **गर्म पानी से स्नान करें:** सोने से पूर्व गर्म पानी से स्नान करना मांसपेशियों के तनाव को कम कर सकता है तथा जोड़ों के दर्द में आरामदायक हो सकता है।
- ⦿ **पैरों को खींचें:** स्ट्रेचिंग व्यायाम करना जोड़ों और मांसपेशियों को लचीला बनाने का सरल तरीका है। यह तनावमुक्त करता है तथा दैनिक कार्य करने में सक्षम बना सकता है।
- ⦿ **धूम्रपान से बचें—** धूम्रपान लूपूस तथा रूमेटाइड आर्थराइटिस से होने वाली जटिलताओं के खतरे को बढ़ा सकता है। यह व्यक्ति को आस्टियोपोरोसिस तक ले जा सकता है।

डिस्क्लेमर— यह योग के जरिए रोग के प्रबंधन के लिए सामान्य जानकारी है। इसे उपचार हेतु पर्चे के रूप में न समझा जाए।

आर्थराइटिस के प्रबंधन
हेतु यौगिक अभ्यास



कुंजल



कपालभाति



ताड़ासन



कटिचक्रासन



हस्तोत्तानासन



उत्तानपादासन



पवनमुक्तासन



वक्रासन



भुजंगासन



भद्रासन



मर्जरीआसन



धनुरासन



मकरासन



शवासन



नाड़ीशोधन प्राणायाम



ध्यान

आर्थराइटिस का यौगिक प्रबंधन



बिक्री के लिए नहीं, मुफ्त प्रचार सामग्री



अधिक जानकारी के लिए कृपया सम्पर्क करें :

निदेशक

मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान

आयुष मंत्रालय, भारत सरकार

68, अशोक रोड, गोल डाक खाना के निकट, नई दिल्ली-110 001

फोन : 011-23730417-18, 23351099, टेलीफैक्स : 011-23711657

ई-मेल : dir-mdniy@nic.in वेबसाइट : yogamdniy.nic.in